

संदर्भ/Ref. : NBC/S/4.5 & 4.5(A)/2024/1280 दिनांक/Dated: 16.08.2024

To, प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street, To, प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East, **मम्बई/MUMBAI-400 051**

मुम्बई/MUMBAI- 400 001 स्क्रिप कोड/Scrip Code: 532234

प्रतीक/Symbol: NATIONALUM

विषय/Sub: 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) के संबंध में समाचार पत्र प्रकाशन। / Newspaper publications regarding Unaudited Financial Results (Standalone & consolidated) for the quarter ended 30.06.2024.

महोदय/Dear Sir,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 47 के अनुसार, कृपया 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना की प्रतियां की संलग्न गई है। / As per Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of Public Notice published in Newspapers regarding Unaudited Financial Results (Standalone & consolidated) for the guarter ended 30.06.2024.

उपरोक्त नोटिस 13.08.2024 को उड़िया समाचार पत्र "धारित्री", अंग्रेजी समाचार पत्र "हिंदू बिजनेस लाइन" में प्रकाशित हुआ था और 14.08.2024 को हिंदी समाचार पत्र "नव भारत" में प्रकाशित हुआ था। / The above notice was published on 13.08.2024 in the "Dharitri" the Odia newspaper, "Hindu Business Line", the English newspaper and published on 14.08.2024 in "Nav Bharat" the Hindi newspaper.

आपकी जानकारी और अभिलेख हेतु/This is for your information and record. धन्यवाद/Thanking you,

> भवदीय/Yours faithfully, कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड For National Aluminium Co. Ltd.

(एन.के. महान्ति) (N.K. Mohanty) कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी ED & Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) निगम कार्यालय National Aluminium Company Limited (A Government of India Enterprise) REGD. & CORPORATE OFFICE

नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751 013 भारत Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013,India

CIN # L27203OR1981GOI000920

ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି: ୩ ଦିନରେ ୩ ମୃତ



ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛି।

ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି,୧୨୮ (ପ୍ରତୀପ୍ କୁମାର ଦାଶ)

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଝାଡ଼ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦଶ୍ୟସେନାଗୁଡ଼ାରେ ଗତ ଦିନରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । କେହି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଗୁଣିଆ ଆଣି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଅମନାତ୍ୟଙ୍କ ඳිଅ ଜାନକୀ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ମାନି ସୁସ୍ଥ ହେବା

ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଭଳି ଗାଁର ନରସିଂହ ନାୟକ ରବିବାର ଓ ପାଖ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥପୁରର୍ ଦଣ୍ଡସେନାଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ତୁଲସା ଅମନାତ୍ୟଙ୍କ ସୋମବାର ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଦଣ୍ଡସେନାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଭଲ ଖାଇବା ଓ ଗରମପାଣି ପିଇବାକୁ ସଚେତନ କରାଇଛି। ରବିବାର ଗାଁର ଶ୍ରୀଧର ଅମନାତ୍ୟ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ କହିଥିଲେ

ନ ଥିଲେ । ଘରେ ହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଚିକିହା କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଡାକ୍ଟରୀ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ରହିଛି। ପାଣି ନମୁନା ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ରେକ୍ଟାଲ ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଅଡିରିକ୍ତ ଜିଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡା. ନବ କିଶୋର ବେହେର। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରି କେବଳ ଗୁଣିଆ ଏବଂ ଦିଶାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ଯାଏ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପ୍ରଦୂଷଣ: ଭିସା ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଜବାବ ତଳବ ଏମ୍ସରେ ବୀତିହୋତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଯାଜପୁର,୧୨୮୮

(ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା) ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣର ଭୟାବହତା ଏବେ କଳିଙ୍ଗନଗରବାସୀଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଛି । କାରଖାନା ଘେର ମଧ୍ୟରେ ରହି କାଳ କାଟୁଥିବା ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମର ବାସିଦା ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବାୟୁ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ଗାଁର ପାଣି, ପବନ, ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ବିଷ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିଟ୍ୟୁନାଲ (ଏନ୍ୱିଟି) ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ(ଏସ୍ପିସିବି) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କଳିଙ୍ଗନଗର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ତଦନ୍ତ କରି ଏସ୍ପିସିବିର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ୮।୮।୨୦୨୪ରେ ଭିସା ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନାକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୋଟିସ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷକନକ ଉତ୍ତର ରଖି ନ ପାରିଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପିସିବି

ପକ୍ଷର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଭିସା କାରଖାନାକୁ ୩୧ା୩।୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ପାଳନ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁମତି କଳିଙ୍ଗନଗର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ

କାରଖାନା ବାହାରକୁ ବର୍ଜ୍ୟପାଣି ଛାଡ଼ି

ଚାଷଜମିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ସହ ବାୟୁ ପଦ୍ୟଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଉପରେ ଏସ୍ପିସିବିର କଳିଙ୍ଗନଗର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ା୭।୨୦୨୪ରେ ଭିସା ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା I କାରଖାନାର ଫେରୋକ୍ରୋମ କମ୍ଲେକ୍ସ ୟୁନିଟ-୨ର ଫର୍ନେସ-୩ ଓ ୪ରେ ୫୬ ମିଲିଗାମ ପଦାର୍ଥ କଣିକା(ପିଏମ୍) ରହିଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା l ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୫୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପଦାର୍ଥ କଣିକା ରହିବା କଥା । ଏହାବାଦ୍ଫେରୋ ଆଲଏଜ କମ୍ଲେକ୍ସ– ୨ର ବିନ୍ ମିକ୍ସିଙ୍ଗ ବିଲ୍ଥି ଏବଂ ପ୍ଲୀଏ ଆଶ୍ ଲୋଙି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଳିକଣା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ୍ରେ ଧୂଳିକଣା ଉଡ଼ିବା ସହ କାରଖାନା

ଭିତର ଅଂଶର କେତେକ ତ୍ରେନ୍

ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହିସବୁ

କାରଖାନାର କନ୍ସେଷ୍ଟ ଟୁ ଅପରେଟ

(ସିରିଓ)ର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ–

୧୯୭୪ର ଧାରା ୨୫/୨୬ ଏବଂ

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ–୧୯୮୧ର

ଧାର। ୨୧କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଂଘନ କରୁଛି ।

ଫଳରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ

ସୂଷ୍ଟିର କାରଣ ବୋଲି ଏସ୍ପିସିବିର

ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏସ୍ପିସିବିର କଳିଙ୍ଗନଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ୱୟି ପାଇଁ ଭିସା ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ

ଜର୍ମାନ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଦୋଷୀସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨୮(ସତ୍ୟଳିତ୍ ରାଉତ)

ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାରଠାରେ ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ଜମାନ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଜେଲ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିହିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜି ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବୀତିହୋତ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚିକିହ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରବିବାର ରାଡି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୦ ବେଳେ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ପାକସ୍ଥଳୀ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ବୀତିହୋତ୍ରଙ୍କ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏବଂ ପରେ ଏତ୍ମସରେ ଚିକିହିତ ହେଉଥିଲେ । ସୋମବାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ବୀତିହୋତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

୨୦୦୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ଓ ୨୧ ରାତିରେ ବୀତିହୋତ୍ୱ ଉକ୍ତ ଜମାନ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଅଲୱାରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ବଳାକାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା I ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ବୀତିହୋତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବଳାକ୍ନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାର ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଅଲୱାର ପଂଷ୍ଟେଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲଦଶ୍ୟରେ ଦଶିତ କରିଥିଲେ । ଜେଲରେ ରହିବାର ୭ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମା' ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ



ବୀତିହୋତ୍ରଙ୍କୁ ପାରୋଲ୍ରେ ଛାଡିବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଜେଲକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ପିତା ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିବର୍ଷ ନଭେୟର ୨୦ରେ ତାଙ୍କୁ ୧୫ଦିନ ପାଇଁ ପାରୋଲ୍ରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପାରୋଲ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ବୀତିହୋତ୍ର ଆଉ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଫେରାର ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ବୀତିହୋତ୍ୱଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳି ନ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାରୋଲ୍ରେ ଆଣି ପୁଅକୁ ଫେରାର କରାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା କରିଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଭୃଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ୨୦୦୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କୁ ନିଲୟିତ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ୨୦୦୯

୭ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଞିତ ହୋଇଥିଲେ ଏପିଲ ମେ ୧୨ରେ ଜୟପୁର ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଚିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

କରିଥିଲେ । ଜାମିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଲୟନ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଏମ୍ବିଏରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ବୀତିହୋତ୍ ନିଜକୁ ଆନ୍ଧପ୍ରଦେଶର ରାଘବ ରାଜନ୍ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବା ଆରୟ କରିଥିଲେ । ସେ କେରଳରେ କୌଣସି ମତେ ଟ୍ରାଭାନ୍କୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରୋବେଶନାରି ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ୨୦୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ କେରଳ ପୋଲିସ କୋନ୍ନରରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପାରୋଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କୋର୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ୩ ମାସ ଜେଲଦଣ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ୨୦୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ରେ ବୀତିହୋତ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବହୁ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ ୨୦୨୩ରେ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କୋହଳ ପାଇଁ ସେ ଗତ ଏପିଲରେ ସୁପିମକୋର୍ଚରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ୨୦୨୪

କ୍ଟନ ୫ ପୂର୍ବରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ

ବୀତିହୋତ୍ରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା

ପରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।

ଏମକେସିଜିକୁ ମିଳିଲାଣ ୨୯ ଶରୀର

ବ୍ରହ୍ମପୁର,୧୨୮(ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ)

ମଙ୍ଗଳବାର ବିଶ୍ୱ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦିବସ। ମୂତ ଶରୀର ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏବେ ବି ତାହା ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଏହାର ସରଳୀକରଣ ଓଡ଼ିଶା ଆନାଟୋମି ବିଲ-୨୦୧୨ ପ୍ରଣୟନ ପରେ ଶରୀର ଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ବିଲ ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଶରୀର ଓ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୀଶ। ଦେଖାଇଛି । ଏବେ ବହୁ ଲୋକ

ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦିବସ

ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇ

ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହାକି ଡାକ୍ତରୀ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତା

ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍କିଟାଲକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୨୯ ଜଣଙ୍କ ମରଶରୀର ଦାନସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଆନାଟୋମି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡା. ସାଗର ପୂଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି। ଏଥି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନତା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଗବେଷଣାରେ ବେଶ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ପରେ ବହୁ ସଚେତନ

ଶରୀର ଦାନକୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ନାଗରିକ ନିଜର ଶରୀର ଦାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଦାନ କରିବାକୁ (କ୍ରମେ ଲୋକମୁଖରୁ ଓ ଜନମାନସରୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଉଥିବା ଢଗଢମାଳି ପାଠିକା–ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସକାଶେ ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରୟାସ) ଅଉଳ ପତ୍ର ବଉଲ ବାଆ, କୋଳି ଗୋଣ୍ଡାକର ଘର,


ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାର ବଳଦ ବାନ୍ଧି, ନାଥେ ହେଲେ ହରବର I

ଅଭାବରୁ ହୀନସ୍ତା । ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ବଳଦ ଆଣି ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପାଳନ କରି ନ ପାରି ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁରବସ୍ଥା ପତି ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଉଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

> ଅଖାଇ ନାନୀ, ପାନ ପତରି ବସିଥାଏ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ, ଘଇତା ଆଗରେ ସକେଇ କାନ୍ଦେ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ତୁଷ୍ତେ ।

ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛି ଅଥଚ ପାଟିରେ କିଛି ବି ଖାଇନାହିଁ । କେତେକ ନାରୀ ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଖାଇଥିବାର ମିଛ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି । ସବୁ ଖାଇ ରାଗ ଅଭିମାନରେ ଖାଇ ନ ଥିବାର ତୁଚ୍ଛା ବାହାନା କରୁଥିବା ନାରୀ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଉଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ନିର୍ବାଚିତ ଢଗଢମାଳି, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ – ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ



ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ମହାକାଶରୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ପାଣିପାଗର ଚିତ୍ର ।

ଶରୀର ଦାନ ପାଇଁ ୧୦୧ ଘୋଷଣାନାମା

କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଓ ଆନାଟୋମି ଆକ୍-୧୯୭୫କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଓ ଆନାଟୋମି ବିଲ–୨୦୧୨ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା l ସଂଶୋଧିତ ଆଇନରେ ଶରୀର ଓ ଅଙ୍ଗଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରାଯାଇଥିଲା l ଯଦ୍ୱାରା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅତି ସହଜରେ ମରଶରୀର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ଦାନ ଆକାରରେ ଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଜୁଥିଲା । ଏବେ ଏହା ସରଳୀକରଣ ପରେ ୨୦୧୫ରୁ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୮ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୧ ଜଣ ବ୍ୟଲ୍ଟି ନିଜର ଶରୀରଦାନ ପାଇଁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରଦାନ ପାଇଁ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆନାଟୋମି

ଧରାପକାଇଲା ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା

୩ ଶିକାରୀ ଗିରଫ

ବାରିପଦା,୧୨୮ (ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଦଣ୍ଡପାଟ)

ଜିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନରୁ ୩ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି। ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜକୁନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୩ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁଳ, ଧନୁ, ତୀର, ଶୟର ଓ ହରିଣର ଦେହାବଶେଷ, ଲୁହାଗୁଲି ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ମଠବେଢା ଗାମର ଶ୍ରୀମତ ମାଝୀ, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଯଦୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମର କାରୁ ହାଁସଦା ଓ ବେଲପାହାଡ଼ି ଗାମର ବୁଢ଼ାନ ମାଝୀ। ଏ ସଂକାନ୍ତରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଚଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।



ବର୍ଷ ଭିତରେ ୨୨ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀର ମିଳିଥିବାବେଳେ ୭ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ମିଳିଥିବା ଆନାଟୋମି ବିଭାଗ



(ସମୟ ଶାଖାରେ ଉପଲବ୍ଧ)

୭ - ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪

ହସତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

A NAVRATNA COMPANY

ପ୍ରଫେସର ପୃଷ୍ଟି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

National Aluminium Company Limited (A Government of India Enterprise) NALCO Bhawan, P/1, Nayapalli, eswar-751 013, Odisha, India CIN: L27203OR1981GOI000920

Aluminium Smelter Alumina Refinery Renewable Energy Power Generation NALCO: EMPOWERING PROGRESS, NURTURING EXCELLENCE

EXTRACTS OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

	Particulars	Standalone				Consolidated			
I. No.		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year En
31. IVO.		30/06/2024 (Unaudited)	31/03/2024 (Audited)	30/06/2023 (Unaudited)	31/03/2024 (Audited)	30/06/2024 (Unaudited)	31/03/2024 (Audited)	30/06/2023 (Unaudited)	31/03/2 (Audit
1.	Total Income from Operations	2,856.10	3,579.05	3,178.69	13,149.15	2,856.10	3,579.05	3,178.69	13,149
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	817.01	942.67	470.91	2,356.76	817.01	924.67	470.91	2,356
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	817.01	1,369.48	470.91	2,783.57	804.21	1,350.39	455.28	2,712
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	601.22	1,015.83	349.39	2,059.95	588.42	996.74	333.76	1,988
5.	Total Comprehensive Income for the period comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	603.20	1,026.36	357.11	2,067.86	590.40	1,007.27	341.48	1,996
6.	Equity Share Capital	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	13,653.34	-	-	-	13,469
8.	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.5/- each) (not annualised):								
	1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)	3.27 3.27	5.53 5.53	1.90 1.90	11.22 11.22	3.20 3.20	5.43 5.43	1.82 1.82	10 10

ormat of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com; and Company's website, www.nalcoindia.com.

- 1. The financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee at the meeting held on 12th August, 2024 and approved by the Board of Directors in its meeting held on 12th August, 2024. Limited Review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.
- 2. Out of the four joint venture companies whose financials have been consolidated, financials of M/s. Angul Aluminium Park Company Limited and Khanij Bidesh India Limited have been consolidated on the basis of
- financials as certified by the Management as on reporting date, the effects whereof are not material 3. The Board of Directors at its meeting held on 12th August 2024 has recommended final dividend of ₹ 2/- per equity share (40% on face value of ₹ 5/- each) amounting to ₹ 367.33 crore for the FY 2023-24.
- 4. Consequent upon execution of lease deed for Pottangi Bauxite Mine, an amount of ₹ 626.72 crore has been capitalised as mining right during the quarter ending 30.06.2024. 5. The Company has not recognised the revenue from its two wind power plants located in the State of Raiasthan due to non execution of fresh Power Purchase agreement (PPA) since 01.04.2019 and such issue being
- subjudice before Hon'ble High Court of Rajasthan based on writ petition filed by the Company 6. The figures of the quarter ended 31st March 2024 are the balancing figures in respect of the audited full financial year ended 31st March 2024 and the unaudited published year to date figures up to the third quarter

Dated: 12th August, 2024

7. Figures pertaining to previous periods have been regrouped, recasted and rearranged, wherever necessary

(CA Sridhar Patra) Chairman-cum-Managing Director

To debate insurance premium, GST Council may meet on Sept 8,9

Shishir Sinha New Delhi

Days after Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the debate around GST on insurance premium will be taken up by the GST Council, the designated body is expected to meet on September 8 and 9 to discuss the issue. Other matters that the Council will be taking stock of include progress on rate rationalisation.

The meeting will be held after the Fitment Committee and the Law Committee (sub-committees of the Council comprising officers from Centre and States) have met.

Based on representations from various quarters, these committees will ready the groundwork for various proposals, which will then be presented before the Coun-

The body, chaired by the Finance Minister and comprising Ministers from the States, will give its recommendations to be implemented by the Centre, the States and the Union Territories.

Even though the agenda of the meeting is yet to be finalised, some issues are certain to be taken up. One such item is the GST on insurance premium, which has become a political issue.

The matter was raised by the Opposition during the debate on Budget 2024. Responding to the same, Sitharaman said that even before GST was rolled out, the States levied tax on insurance premia.

"Out of the 18 per cent GST on medical insurance, nearly half goes directly to the States. Of the remaining half, 41 per cent moves into the devolution pool, which also goes to States. This means more than ₹74 out of every ₹100 collected goes to the States," she said, dismissing allegations that



view the GST exemption list

and enhance revenues col-

lected from the Goods and

The meeting is also expected

to discuss the show-cause notice for GST payment of

₹32,000 crore to Infosys and

around ₹10,000 crore worth

notices to 10 foreign air-

lines. Infosys, however, has

said that the Directorate

General of Goods and Ser-

(DGGI) has withdrawn the

pre-show cause notice pro-

ceedings for FY18, amount-

received a pre-show cause

notice from the Karnataka

State GST authorities instructing it to pay Goods and Services Tax (GST)

amounting to ₹32,403

crore for the period of July

also received a pre-show

cause notice from the DGGI.

pany announced that the

Karnataka authorities had

withdrawn the notice a day

later and had instructed it to

submit additional informa-

tion to the DGGI.

Following this, Infosys

However, the com-

2017 to March 2022.

On July 31, the company

ing ₹3,898 crore.

Tax Intelligence

Services Tax.

OTHER ISSUES

Finance Minister Nirmala Sitharaman AN

money collected through GST is "pocketed" by the Centre. Further, the FM said Parliament is not the right forum to decide on GST: it is the GST Council.

The issue of GST on insurance, Sitharaman added, has been discussed thrice by the GST Council, yet this debate keeps resurfacing.

RATE RATIONALISATION

Another key agenda that could be discussed is rate rationalisation. At the end of the last Council meeting in June, Sitharaman had said that the Group of Ministers (GoM) will present a status report on rate rationalisation discussed till date.

Accordingly, the Council will take it forward. However, the process to finalise the rate rejig will take time, she indicated.

Bihar's Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary is the convenor of GoM, which is responsible for providing recommendations on rate rationalisation.

The seven-member panel has been tasked with suggesting rate rationalisation and correcting the inverted duty structure so as to simplify the rate structure, re-

Our Bureau

Domestic financial conditions eased in July, according to the Crisil Financial Conditions Index (FCI), which rose to 0.8 in July from 0.5 previous month.

Net FPIs increased for the third straight month to \$5.8 billion in July compared to \$5 billion in June, driven by higher inflows in both debt and equity segments. Inflows rose to \$2.7 billion from \$1.8 billion in the debt segment and to \$3.9 billion from \$3.2 billion in equity markets.

Systemic liquidity was in surplus in July (vs a deficit in the previous month) due to a boost in government spending and robust FPI inflows. Accordingly, the RBI net absorbed ₹1.03 lakh crore (0.4 per cent of net demand and time liabilities, or NDTL) in July compared to an average net injection of ₹0.55 lakh crore (0.2 per cent of NDTL) in June.

The central bank net sold G-Secs worth ₹10,105 crore

Excess liquidity in the system

Domestic financial conditions eased in July: Crisil index

pulled down money market rates, Crisil said

through open market operations.

Excess liquidity in the system pulled down money market rates, Crisil said. The weighted average call money rate (WACR) eased 8 bps averaging 6.51 per cent, about the same as the repo rate.

The 6-month commercial paper and certificate of deposit rates eased 5 bps each, while the 91-day treasury bill rate (T-Bill) fell 12 bps.

G-SEC YIELDS DOWN

Domestic G-Sec yields continued to decline. The yield on the 10-year benchmark G-Sec was marginally down (3 bps) to 6.97 per cent on aver-

age in July. A lower fiscal deficit target for fiscal 2025 in the Budget, surplus systemic liquidity, a surge in FPI inflows into debt, and lower US treasury yields helped pull down vields.

The decline, however, was capped by the RBI's open

market operation sale. The global environment was broadly conducive as investors geared up for imminent rate cuts by the US Fed-

Foreign portfolio investor (FPI) inflows rose sharply to debt and equity markets. India's formal inclusion in the JP Morgan Emerging Markets Bond Index at the end of June also gave a fillip to debt market FPI inflows.

eral Reserve.



National Aluminium Company Limited (A Government of India Enterprise) NALCO Bhawan, P/1, Nayapalli,

ite Mining Aluminium Smelter
Alumina Refinery Renewable Energy Power Generation **Bauxite Mining** NALCO: EMPOWERING PROGRESS, NURTURING EXCELLENCE

EXTRACTS OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

in	Crore)	

	. Particulars	Standalone				Consolidated			
SI. No.		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
SI. NO.		30/06/2024	31/03/2024	30/06/2023	31/03/2024	30/06/2024	31/03/2024	30/06/2023	31/03/2024
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	2,856.10	3,579.05	3,178.69	13,149.15	2,856.10	3,579.05	3,178.69	13,149.15
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	817.01	942.67	470.91	2,356.76	817.01	924.67	470.91	2,356.76
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	817.01	1,369.48	470.91	2,783.57	804.21	1,350.39	455.28	2,712.08
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	601.22	1,015.83	349.39	2,059.95	588.42	996.74	333.76	1,988.46
5.	Total Comprehensive Income for the period comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	603.20	1,026.36	357.11	2,067.86	590.40	1,007.27	341.48	1,996.37
6.	Equity Share Capital	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	ı	-	13,653.34	-	-	-	13,469.77
8.	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.5/- each) (not annualised):								
	1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)	3.27 3.27	5.53 5.53	1.90 1.90	11.22 11.22	3.20 3.20	5.43 5.43	1.82 1.82	10.83 10.83

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full ormat of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com; and Company's website, www.nalcoindia.com

- 1. The financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee at the meeting held on 12th August, 2024 and approved by the Board of Directors in its meeting held on 12th August, 2024. Limited Review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors of the Company
- 2. Out of the four joint venture companies whose financials have been consolidated, financials of M/s. Angul Aluminium Park Company Limited and Khanij Bidesh India Limited have been consolidated on the basis of financials as certified by the Management as on reporting date, the effects whereof are not material.
- 3. The Board of Directors at its meeting held on 12th August 2024 has recommended final dividend of ₹2/- per equity share (40% on face value of ₹5/- each) amounting to ₹367.33 crore for the FY 2023-24
- 4. Consequent upon execution of lease deed for Pottangi Bauxite Mine, an amount of ₹ 626.72 crore has been capitalised as mining right during the quarter ending 30.06.2024.
- 5. The Company has not recognised the revenue from its two wind power plants located in the State of Rajasthan due to non execution of fresh Power Purchase agreement (PPA) since 01.04.2019 and such issue being subjudice before Hon'ble High Court of Rajasthan based on writ petition filed by the Company
- 6. The figures of the quarter ended 31" March 2024 are the balancing figures in respect of the audited full financial year ended 31" March 2024 and the unaudited published year to date figures up to the third quarter ended 31st December, 2023
- $7. \quad \text{Figures pertaining to previous periods have been regrouped, recasted and rearranged, wherever necessary.}$

Place: Bhubaneswar Dated: 12th August, 2024

(CA Sridhar Patra) Chairman-cum-Managing Director

ATTENTION

POLICYHOLDERS AND AGENTS OF LIC



EXERCISE CAUTION BEFORE ASSIGNING YOUR LIC POLICIES TO UNREGULATED ENTITIES

Certain unregulated entities may be seeking to benefit at the cost of LIC's strong market position and sovereign guarantee, without any approval or authorization from LIC of India and at the cost of LIC's policyholders' interest.



- ▶ This option of **assignment** (as alternative to surrender) is being provided by unregulated private entities.
- LIC <u>does not recognize</u> such unregulated entities and **has no affiliation** to or association with such unregulated private entities.
- LIC <u>does not endorse or recommend</u> any products or services being offered by these unregulated entities to LIC's policyholders and agents.
- ▶ LIC believes that these products and services may pose significant risk to policyholders' and their family's interests and are fraught with risks and may be prone to being misused.
- Registration of assignment is <u>subject to provisions</u> and conditions as stipulated under Section 38 of the Insurance Act 1938.



RECOMMENDATION FOR

- **Exercise extreme caution** before dealing or engaging with any such unregulated private entities offering such alternative solutions.
- ▲ LIC itself offers various services/facilities that may be helpful alternatives for a policyholder who is contemplating surrender of LIC policies on account of financial hardships. All these services/facilities are valid and completely regulated.
- Reach out to your local LIC branch officials to understand alternatives that are available to you, so that dependency on unregulated third parties can be avoided.



PLEASE NOTE

- ▶ LIC does not approve or authorise such arrangements, and LIC will not be liable for any losses, actions, promises, risks, liabilities accruing to policyholders who opt to engage with any such unregulated entities.
- ▶ LIC is not associated with any statements made by any former or unauthorised employees / personnel of LIC.
- ▶ We urge all policyholders to exercise complete caution before making any decision on their policy which may jeopardise their financial security and the risk cover for their family.
- Before responding to any offers, kindly consult with your local LIC branch officials.

We, at LIC of India are committed to complete transparency and ensuring protection of the policyholders and their interest, and have not authorized or delegated this responsibility or our relationship with our esteemed customer, to any third party.



Har Pal Aapke Saath





दस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना और

इस्लामाबादा पाकस्ताना सना आर तालिबान के बीच अफगानिस्तान सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। उत्तर-पश्चिमी तोरखम सीमा के पास

अफगानिस्तानी हिस्से में एक महिला और दो बच्चों की मौत हो गई।

पाकिस्तानी अधिकारी जाहिद खान ने

सीमा के पाकिस्तानी हिस्से में हताहतों के बारे में तत्काल कोई

जानकारी नहीं है। सीमा बंद करने की

के लिए रोज हो विशेष

समाचार बुलेटिन

नई दिस्ली।ए। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह प्रिट्बांधिय और व्यक्तिंग एवं सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए दूरदर्शन पर प्रतिदेन विशेष समाचा बुलेटिन प्रसांति को नायान्त्री की आर गव्हें और न्यायमूर्गि के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पंत्र अतिरिक्त सांतिस्टर जनतर (एस्पर्सणी) पेश्ववर्षा मारी से कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रसार भारती से निर्देश लें। दूरदर्शन ने बोधरों के लिए अपना पहला माजाहिक बुलेटिन 15 अवदृब्स 1987 को शुक्त किया था। शीर्ष अदालत ने एएसजी से मामले में 'सकारात्मक' जवाब देने को कहा और मुनावई की अगली तारीख 28 अगलत तम की। साथ ही, अदालन ने बीधर और सुनने

अगस्त तय की। साथ ही, अदालत ने बधिर और सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए दायर जनहित याचिका पर

30/06/2024 31/03/2024 30/06/2023 31/03/2024

1.015.83

1,026.36

918.32

601 22

603.20

918.32

3.27

1. 12 अगस्त, 2024 को आयोजित बैठक में लेखा परीक्षा समिति द्वारा वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश कीगई है और 12 अगस्त, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सेबी

चेडुांगे बॉक्साइट खन के लिए लीज डीड के निमादन के परिणम स्कल्प, 90.06.2024 को सागल तिमाति के दीरान स्वतन अधिकार के रूप में र 626.72 करोड़ की राशि का चूंजीकरण किया गया है। करने 30.104.2019 से नह विकाली खटीर समझीत चीलीए) के रेन-निमादन के कारण राजस्वान राज्य में विशा अपने थे एक्त कर्जा संबंधों से राजस्व को मान्या नहीं दी है और इस लाह के मुद्दे कंपनी द्वारा व्यवस्था साथिक के अभावर र प्रतासन के माननिय करनावालत के समाह विलालीयों है।

आधार पर समिति किया गया है, दिसांक प्रांतिक नहीं हैं। निदेशक मंडल ने 12 अमस्त 2024 को आयोजित अमनी बैठक में बिता वर्ष 2023-24 केलिए हैं 2/- प्रांत इकियटी सेपर (हैं 5/- प्रत्येकके अंकित मूल्य पर 40%) के ऑसन लाभारा की सिफारिस की है।

(सिर्टिश अभिनोगरस एड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) विनियम, 2015 के वित्यम 33 के तहत आवश्यक सीमत समोख कंपनी के वैधानिक लेखारपीक्कों द्वरा की गई है। चार संयुक्त उदान कंपनियों में से जिनकी वित्तीय स्थित को समेकित किया गया है, मैससे अनुत एन्यूमीनियम चार्क कंपनी लिग्टिट और खनिज बिरोग हुँचिया लिग्टिट को रोगीटिंग तिर्थ के अनुसार प्रकान द्वरा प्रमाणित वित्तीय के

470.91

349 39

918.32

13,653.34

नामा दायर करने के लिए भाटी को एक सप्ताह का

जबरदस्त

गोलीबारी

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर

तालिबान ने पाकिस्तान की दो चौकियां भी नष्ट कीं, एक महिला, दो बच्चे मरे

नौबत आने से दोनों देशों में आवागमन भी रुक गया है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच्

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर

पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने शुरू

किया, हालांकि सीमा पर ऐसी

गोलीबारी आम बात है। दोनों पक्षों के बीच पहले भी तोरखम और

पाकिस्तान में दक्षिण-पश्चिमी चमन

दिष्टिबाधित और बिधरों क्वात्रा ने अमेरिका में भारत के

बीच पहले

तोरखम एक प्रमुख सीमा है,

सीमा कॉसिंग आपसी लड़ाई में बंद

की जा चुकी है। दोनों सीमाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के

लिए व्यापार और यात्रा के लिए महत्वपूर्ण हैं। काबल में,

महत्वपूर्ण हैं। काबुल में, अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने पाकिस्तानी बलों पर नागरिकों को

निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके ऐवज में तालिबान ने उनकी दो

वाशिंगटन। भारत के पूर्व विदेश

सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने

अमेरिका में भारत के नए राजदूत

चौकियां नष्ट कीं। एजेंसी

राजदूत का कार्यभार संभाला

अभासका में भारत कर नप्प राजदूर के रूप में कार्यभार संभाल लियाहै। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की प्रतिबद्धता जुताई। हाल ही में 14

जुलाई को विदेश सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए क्वात्रा (61), तरणजीत सिंह संधू का स्थान लेंगे, जो साल की शुरुआत में विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

नम् राजदूत का स्वागत : नई दिल्ली। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने मंगलवार को विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी। उन्होंने कहा,

आपके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी

को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हूं।

न्यूज डायरी

पाकिस्तान में 2 मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध ईशनिंदा का मामला दर्ज

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पवित्र किताब के पन्नों को जलाने के आरोप में दो किताब के पन्नी को जलाने के आएं में दों प्रिस्तम महिलाओं पर प्रशिद्य का मामणा दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक, लागिर से करिब 50 किमी दूर कस्तुरी लाले के पत्र कलां करि स्थानीय प्रमान काशिफ अली की शिकायत पर एक निजी स्कूल की प्रिस्ताय शाना का और उनको और शाजिया कामात पर यह मामणा दर्ज किला गाना है। पुलिस के मुताबिक, इमाम द्वार मिंग्य दे पुलिस किताब के पन्नी लालों को एलां करने के बाद दों जी मिंग्याई और उनके परिवार गांव से भाग गए हैं। एउन्ही

पाकिस्तान में पूर्व आईएसआई प्रमुख की गिरफ्तारी का स्वागत



का मंगलवार को स्वागत किया। हालांकि इमरान खान की पार्टी ने हमीद की कथित संलिपता को

सेना का आंतरिक मामला बताते हुए इस मामले में तटस्थ रहने का फैसला किया। एजेंसी म्यांमार ने गिरफ्तार किए जापान

के कार्यकारी को रिहा कर दिया

क्य कार्यकार का रिहा कर दिया उपनेशा भ्याम रे एक मारू में हिएसत में रहे जापनी व्यापार कार्यकारी हिरोशी कारमप्तमु को रिक्त कर दिखा है। म्योपार युपपामकेट 'एवां' अर्था'' के निरक्षिक हिरोशी कारमप्तमु नियमी से अधिक द्याम पर चावल बेचने के आरोप में उठ जुन को अपगी मिरसारी के बाद पर म्यापाम से हिरसार में थे। उसे एक वर्ष को जैक और उनाख बच्चा (करीब 150 डॉलर) का जुमांना लगावा गया था। एउँसी

सिंगापुर : भारतवंशी पूर्व मंत्री ईश्वरन का केस अब अंगले माह

सिंगापुर। पूर्व भारतीय मूल के परिवहन मंत्री एस. ईश्वरन के केस की तारीख 13 अगस्त से



्लि म, , लूल के परिवहन में कस को तारीख 13 अगरत बदलकर 10 से 13 सितंबर कर दो मू 13 अर्टान-जनसर के टप्प ने इसकी पुष्टि -सितंबर कर दी गई है। अटॉर्नी-जनरल के दफ्तर ने इसकी पृष्टि की है। ईश्वरन हाईकोर्ट के उस ऐस्से के विरुद्ध अपील चाहते हैं, जिसमें जुलाई में एक जज़ ने अभियोजन

भारत ने जी-4 देशों की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में दोटूक कहा-

वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए गोलीबारी, आवाजाही रुकी, 3 मौतें सुरक्षा परिषद में बदलाव आवश्यक

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने जी-4 देशों की ओर से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूप्तपससी) में ऐसा कोई भी सुधार, जो विशेष रूप से स्थायी श्रेणी में — भेने गर ध्यान नहीं देता, वह इसकी संरचना में मौजूदा असंतुलन को और बढ़ाएगा। उचित सुधार के बिना सुरक्षा परिषद मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं हो सकेगा।

देश-विदेश

ानपटन में सबन नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि और प्रभारी आर. रवींद्र ने कहा, हाल में घटे वैश्विक भूराजनीति हाल में घटे वैश्विक भूराजनीति घटनाक्रमों ने साफ दर्शाया है कि सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति-सुरक्षा के संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने में अक्षम है जबकि दुनिया को इसकी सबसे अधिक जरूरत है। वह यूएनएससी की उच्चस्तरीय परिचर्चा में जी-4 देशों (ब्राजील, जर्मनी, जापान व भारत) की ओर से बयान दे रहे थे। परिचर्चा का जार स चनान ५ रहे जा नारजवा क विषय था, 'विश्व शांति-सुरक्षा बनाक रखना : ऐतिहासिक अन्याय पर ध्यान देन और यूएनएससी में अफ्रीका के प्रभाव जार पूर्वन्दस्सा न जन्नाका क न्नाना प्रतिनिधित्व का विस्तार करना'। रवींद्र ने अगले माह संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्चस्तरीय सत्र से पहले कहा कि 1945 में परिषद की स्थापना के समय जो वास्तविकताएं थीं, उनकी जगह मौजूदा भूराजनितिक वास्तविकताओं ने ले ली हैं और हर स्तर पर बदलाव की जरूरत

महसूस की जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया

का मामाना दन किया गया बाजा ग्या बांचार की अपदस्य प्रधानमंत्री सेख हसीना और छह अन्य के खिलाफ शिख्ते महीने हुई हिस्सक हहुयों के दौरान कियने जी एक इक्तान के मासिक की मीत को लेकर हरण का मामाना दर्ज किया गया है। यह मामाना किराने को दूकान के मासिक अबू सार्ट के पूर्णियोंक ने दर के कराया है, जिनकी मोहामन्दुर में आख्या आंदोलन के सामाने में गोत हो गोई थी। जीकरी में आख्या आंदोलन के सामाने में गोत हो गोई थी। जीकरी में आख्या की विवादमान्द्र जनस्था को लेकर आध्यों आधीं भीत सामान्द्र के सिकार कार्यका को

लेकर अपनी अवामी लीग नीत सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले सप्ताह इस्तीफा देकर भारत भाग गर्यी हसीन (76) के खिलाफ दर्ज किया गया यह पहला मामला है।



प्रतिनिधित्व की कमी दूर हो

संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थावी प्रतिनिधि आर. रवींद्र ने कहा कि जी-4 देशों के लिए यूएनएससी के सही से काम नहीं करते की प्राविश्वन कवाड़ अप्रोक्ता, दिनिट अमेरिका न कैरिकेश कर को अप्रीक्ता कर का उसके, तो दिन अमेरिका न कैरिकेश देशों को प्रतिनिधित्व नहीं रही है। उन्होंने कहा, जी-4 का दुख विश्वना है कि परिपद का कोई भी सुभार तब तक के बेका है के जब कि किए से प्रतिनिध्न का कोई भी सुभार तब तक के बेका है के जब कि कि परिपद को कोई भी सुभार तब तक के बेका है के जब कि कि परिपद में प्रतिनिधित्व की तम के से प्रस्त के स्वावन के स्थान के से परिपद में प्रतिनिधित्व की उसके प्रति में प्रतिविध्वन की राज्य के से प्रस्त की किए से प्रतिविध्वन की राज्य की राज्य की स्थान की स्थान से प्रतिविध्वन की स्थान की स्थान से प्रतिविध्वन की स्थान की स्थान से प्रतिविध्वन की स्थान की राज्य स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्

अप्रभीवि देशों का समर्थन मांडन में प्रतासिक है कि पीपक की सदस्या मीजूदा 15 से बढ़कर 25-26 को जाए, हिसमें कह स्थापी और चार या पांच गैर-स्थापी सदस्य शामिक है। छन पर स्थापी सदस्यों में से दो-दो अफ्रीकी देशों और पोराया-प्रशास देशों से, एक लेटिन-अमेरिको और कैमेरिकाई देशों से और एक प्रीप्यमी पुरोपीय व अन्य देशों से होने अप प्रतास है पांदी ने कहा, स्थापी सरस्या में सुदे होनीफाकरों (बीटो आहे) पर हम अम अफ्रीको सिपति का भी सम्योग करते हैं। उन्होंने कहा, श्री-व के रूप में स्था अफ्रीका की के प्रतास आप अफ्रीका सी के प्रतास करने हम अफ्रीका की वैध मांगों का पूरी तरह समर्थन करेंगे।

यथास्थिति में सुधार सिर्फ छल

प्रशासिक्यात म सुआर स्थाप छात्र । आर. रवींद्र ने बहु दूसरा परिदृष्ण वर्षाधील का है, जहां सुध्यर और प्रतिनिधित्त केवल छल (सावार्ष) हैं। यह हमारा प्रस्ता नहीं होना चाहिए। भारत ने सुध्यों को आगे बढ़ाने की जकरत पर कोर दिख्य पूजा और भिष्कत को पिद्यों को आजार प्रध्यान दिखा, सिक्सी आफ्रीका प्री चाहित्त हैं। उन्होंने कहा, अल्या, हम परिष्य को गुम्मामी और अध्यानिकता के राज्ये पर भेवसे का बजता उठतों होंगे। बोने ने चोह रिखा कि सुध्याधीन किलायों में प्रतिनिध्यत अभी भी आफ्रीका और दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों के लिए एक बाताविकता नहीं है। भारत ने कहा, प्रोकृत नाय्न सुध्या परिष्य में मुध्या करते हैं और भारत को स्थायी सरस्थता मिलानी चाहिए, ताकि भूराजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या न आए।



एक नवरत्न कंपनी

अवधि केलिए शुद्ध लाभ (कर पूर्व, असाधारण और/या असाधारण मद)

कर पूर्व अवधि केलिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/या असाधारण मद के

कर पश्चात अवधि के लिए शृद्ध लाभ (असाधारण और/या असाधारणमद के पश्चात)

अवधि के लिए कुल समेकित आय जिसमें अवधि के लिए लाभ/हानि शामिल है अवधि (कर पक्षात) और अन्य वृहद आय (कर पक्षात)

भंडार (पुन मून्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित जुलन-पत्र में रिखाया गया है

-प्रति शेयर आय (असाधारण मदों से पूर्व)(प्रत्येक रुपये 5 का) (वार्षिक नहीं)

परोक्त सेवी (लिस्टिंग ऑक्टिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टीक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामी के रा प्रारूप स्टीक एक्सचेंज की वेबसाइटी, www.nseindia.com और www.bseindia.com; और कंपनी की वेबसाइट, www.nalcoindia.com पर उ

्**ंचन ए**ल्यूमि एल्यूमिना परिशोधक

नानपम् प्रद्रावक नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन

30/06/2024 31/03/2024 30/06/2023

3,579.05

924.67

996.74

1,007.27

918.32

5.43

नालको: प्रगति का साथी, उत्कृष्टता का पोषक

588.42

918.32

साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत् प्रारूप का एक उद्धरण है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के उद्धरण

2,356.76

2.059.95

2,067.86

918.32

470.91

333.76

918.32

31/03/2024

2,356.76

1,988.46

1,996.37

918.32

10.83

(सीए श्रीधर पान)

.

13,469.77

हमने नहीं गिराई हसीना की सरकार : अमेरिक<mark>ा</mark>

सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिकी सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी का आरोप भी लगा था

वॉशिंगटन। एजेंसी। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण एशिया के देश बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक में उसकी कोई भूमिका नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन ज्यां-पिएरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह आरोप या अफवाहें कि अमेरिका की सरकार इन घटनाओं में शामिल थी,

जनात्मा को स्त्रार इन पटनाजा ने सामरा था, बिल्कुल गलत हैं। रविवार को भारत के इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हसीना ने अमेरिका पर उन्हें हटाने की कोशिश का आरोप लगाया क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण चाहता था। अखबार ने कहा कि हसीना ने यह संदेश अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से दिया था। हालांकि हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने इस बात का

खंडन करते हुए रविवार को सोशल मीडिया सा<mark>इर</mark> एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बया-नहीं दिया था। ज्यां-पिएरे ने कहा, हमारा मानना है <mark>कि</mark> बांग्लादेश की जनता को वहां की सरकार का भविष्य तय करना चाहिए और इस मामले में हमारा यही र<mark>ुख</mark> ति नहीं निर्देश की देशी एक महीने चले प्रदर्शनों के हैं। बांग्लादेश में करीब एक महीने चले प्रदर्शनों के बाद पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा <mark>दे</mark> दिया था और वह भारत चली गई थीं। उसके बाद <mark>देश</mark> में एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसका नेत नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस को सौ<mark>ँप</mark> गया। कुछ खबरों में आरोप लगाया गया कि शे<mark>ख</mark> हसीना की सरकार गिरने की वजह सेंट मार्टिन द्वीप मे अमेरिका की दिलचस्पी है। भारतीय मीडिया में कह गया था कि शेख हसीना पांच अगस्त को देश छोड़ से पहले राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थीं, लेकि<mark>न</mark> ळात्रों के हिंसक पटर्शनों के बीच उनका भाषण नहीं है पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने खुल किया था कि अगर मैंने सेंट मार्टिन और बंगाल खाड़ी अमेरिका को दे दिए होते, तो मैं सत्ता में बनी रह

पेज ३ का शेष

जुनियर डॉक्टर दुष्कर्म.. इस वारदात के विरोध में देशभर के जूनियर डॉक्टर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पुलिस को मंगलवार शाम तक केस डायरी और बुधवार की सुबह तक अन्य सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। एजेंसी ने देर शाम केस डायरी कब्जे में ले ली। इससे पहले केस डायरी देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। साथ ही. मामले में सवाल उठाए। साथ ही, मामले में जुटाए गए सभी सीसीटीवी फुटेज भी केंद्रीय एजेंसी के हवाले करने के निर्देश दिए। छात्रा के माता-पिता की ानपुरा विष्टा छात्रा के मारानिपता की ओर से अदालत की निगरानी में जांच और कुछ जनहित याचिकाओं में सीबीआई से जांच की मांग पर कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया। अब तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी, तब सीबीआई को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। सुनवाई में पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि पहले किसी ने परिवार को फोन किया और कहा, भारतार यंग नगन जिला जार कहा, आपकी बेटी बीमार है। फिर दोबारा फोन पर कहा, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि परिवार का दावा याह का बतावा कि नित्वार की दोवा सही है। मृतक के परिवार को अस्पताल के सहायक अधीक्षक ने दो

कटघोरा में जल्द...

श्री जायसवाल ने बताया, कटघोरा में जल्द ही शुरू होने वाली लीथियम की खदान देश की पहली लीथियम खदान होगी। वर्तमान में लीथियम एक अहम

बार फोन किया था। हालांकि, फोन पर क्या बताया गया, इस बारे में राज्य ने कोर्ट में कुछ नहीं कहा।

की नई दिशा की तरफ अग्रसर होंगे। मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित बिहार,

गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, जम्मू और कश्मीर में स्थित 20 क्रिटिकल एंड स्टेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स का ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए किया गया है। इन 20 ब्लॉक्स में से छत्तीसगढ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र में लीधियम एंड आरईई ब्लॉक भी शामिल है। लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जीएसआई द्वारा प्रारंभिक सर्वे में लगभग 10 पीपीएम से 2 हजार पीपीएम लिथियम कन्टेंट पाया गया है। ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी उपस्थिति पाई गई है।

धात् है, जिससे राज्य और देश विकास

हिंदू समुदाय को... शेख हसीना सरकार के पतन के बाद

अल्पसंख्यकों के साथ जारी हिंसा और बर्बरता के बीच आठ अगस्त को यनस ने पद संभाला था। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के मुताबिक, यूनुस ने कहा कि सभी के अधिकार समान हैं। हर व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। कृपया धैर्य रखें, बाद में निर्णय लें कि हम क्या कर पाए और क्या नहीं। अगर हम विफल होते हैं, तो हमारी आलोचना करें।

हिंदू संगठनों ने मांग पत्र सौंपा हिंदू संगठनों ने आठ मांगों वाला एक मसौदा भी यूनुस को सौंपा। इसमें हिंदुओं व मंदिरों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने मे तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाने, अल्पसंख्यकों के लिए 10 फीसदी संसदीय सीटों का आवंटन और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने की मांग प्रमुख हैं।

शुक्राणु या अंडाणु...

अदालत ने कहा कि दिशानिर्देशों के नियम के अनुसार, दानकर्ता और सरोगेट मां को सभी अभिभावकीय अधिकार त्यागने होंगे। साथ ही कहा कि वर्तमान मामले में जुड़वां बच्चियां याचिकाकर्ता और उसके पति की दंपती समान्य प्रक्रिया से गर्भधारण नहीं कर सकते थे और याचिकाकर्ता की बहन स्वेच्छा से अपने अंडे दान करने के लिए आगे आई। दिसंबर 2018 में सरोगेट मां द्वारा गर्भ धारण किया गया और अगस्त 2019 में जुड़वां लड़कियों का जन्म हुआ। अप्रैल 2019 में अंडाणु दान करने वाली बहन और उसका परिवार सड़क हादसे की चपेट में आ गया जिसमें उसके पति और बेटी की मौत हो गई। याचिकाकर्ता अगस्त 2019 से मार्च 2021 तक अपने पति और जुड़वां बेटियों के साथ रहती थी। मार्च 2021 में वैवाहिक कलह के बाद, अपनी पत्नी को बताए बिना बच्चों के साथ दूसरे फ्लैट में रहने चला गया। पति ने दावा किया कि उसकी साली (अंडाणु दान करने वाली) सड़क दुर्घटना के बाद अवसाद में चली गई थी और जुड़वा बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके साथ रहने लगी

सभी ब्रांड के...

'टॉक्सक्स लिंक' के एसोसिएट निर्देशक सतीश सिन्हा ने कहा, 'हमारे अध्ययन में नमक और चीनी के सभी नमुनों में माइक्रोप्लास्टिक की अच्छी खासी प्राचा का पाया जाना चिंताजनक है। मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में तत्काल और व्यापक अनुसंधान की जरूरत है।'

स्थानः भुवनेश्वर निर्माकः 12 अगस्त, 2024

टिप्पणियाँ :

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 🏽

मोर मकान•मोर आस

खुशियों को लगे पंख, प्रधानमंत्री आवास योजना के संग

le.

豖.

आवेदक को प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।	
आवेदक नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा सीमा के अंतर्गत क्षेत्र में दिनांक 31.08.2015 के पूर्व से निवासरत् होना चाहिए ।	1
आवेदक के पूरे परिवार (पति,पली एवं अवयस्क बच्चे) की वार्षिक आय रु.3.00 लाख से कम होना चाहिए ।	1

आवेदक के परे परिवार के सदस्यों के नाम से देश में किसी भी स्थान पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए ।

संबंध में शेष आंकड़े हैं। 7. पिछली अवधि से संबंधित आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुन: समूखेकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनक्रमिक किए गए हैं।

भिलाई-चरोदा निगम सीमा अंतर्गत स्लम/गैर स्लम में किराये में रह रहे निवासियों के लिए स्वयं के आवास हेतू सुनहरा अवसर...

परियोजना स्थल का नाम	उपलब्ध आवास की संख्या	हितग्राही अंशदान की कुल राशि
⇒उरला (वार्ड क३०)	220	3,18,000/-
♦ उमदा (वार्ड क०६)	87	3,24,600/-
		. 4 -02- 00

आवेदन करने कि अंतिम तिथी : 30.08.2024 तक

आवास ऋण की सुविधा हेतु तथा अधिक जानकारी के लिए -

नगर निगम कार्यालय के प्रधानमंत्री आवास योजना कक्ष में संपर्क करें ... संपर्क हेतु मोबा.नं.- 7999587087



नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा की ओर से जनहित में प्रचारित